SHREE WORSTEX LIMITED

Regd. Off: 325, IIIrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 Mob. : 9315202833, Email ID: shreeworstex@gmail.com, info@shreeworstex.in Website: www.shreeworstex.in, CIN: L17111DL1982PLC013790

June 28, 2021

To,Metropolitan Stock Exchange of India LimitedDepartment of Corporate Relations
BSE LimitedMetropolitan Stock Exchange of India Limited
(Formerly known as MCX Stock Exchange
Limited)P. J. Towers, Dalal Street
Mumbai-400 001Limited)
4th Floor, Vibgyor Towers, Bandra Kurla Complex,
Bandra East, Mumbai – 400 098Symbol: SHWLScrip Code: 541358

Dear Sir,

Sub.: Newspaper advertisement of audited financial results approved in the board meeting held on Friday, 25th day of June, 2021 for the quarter and year ended March 31, 2021

ISIN: INE926R01012

With reference to the regulation 47 and other applicable regulations, if any of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are submitting herewith the copy of newspaper advertisement of audited financial results approved in the board meeting held on Friday, 25th day of June, 2021 at 04:00 P.M. for the quarter and year ended March 31, 2021 published in English language national daily newspaper circulating in the whole or substantially whole of India i.e. "**Financial Express**" and Hindi newspaper i.e. "**Jansatta**" as on Sunday, June 27, 2021.

Please find enclosed the copy of the same.

Thanking You, Yours truly

For Shree Worstex Limited

NEW DELH **Kiran Mittal** (Director) DIN: 00749457

Encl: Copy of Newspaper Advertisement

kotak

Griek Marinena Ban

DNU',



l arrive at a conclusion not an assumption. Inform your opinion with detailed analysis.

♦ The Indian EXPRESS

Syngene

Kotak Mahindra Bank Limited 2nd Floor, North West Avenue Road, Sector-4, Club Road, Punjabi Bagh, New Delhi-110026

PUBLIC NOTICE

It is hereby informed that Kotak Mahindra Bank Limited through its authorised officer has instituted an Application under Section 7 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 against M/s. Jotindra Steel and Tubes Limited [CIN-L27104HR1970PLC005240], due to its failure to repay the Financial Debt owed to Kotak Mahindra Bank to the tune of Rs. 14,48,48,132.15/-.

The said Application bearing number CP(IB) No.12/Chd/Hry/2021 came up for hearing before the Hon'ble National Company Law Tribunal, Chandigarh Bench on 19th March, 2021, when the Hon'ble NCLT issued the following interim order against the said Jotindra Steel and Tubes Limited (Respondent/Corporate Debtor):-

"List the matter on 07.07.2021. In the circumstances and in view of the primafacie case made out, the Respondent-Corporate Debtor is directed not to alienate or create any charge or encumbrance on the immovable assets of the corporate debtor and not to utilize the funds of the corporate debtor, except in the usual course of business without prior approval of this Adjudicating Authority".

In view of the order passed by the Hon'ble NCLT above, the public in general is hereby cautioned that any dealing with the assets of M/s. Jotindra Steel and Tubes Limited in contravention of the above order would be at their own risk. Authorized Office

Place: Delhi

Kotak Mahindra Bank Ltd.

SHREE WORSTEX LIMITED

CIN: L17111DL1982PLC013790 Regd. Off.: 325, Illrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi - 110085 E-mail: shreeworstex@gmail.com, info@shreeworstex.in,

Website: www.shreeeworstex.in, Mob.: 9315202833

Extracts of the Standalone Audited Financial Results For the Quarter and Year Ended 31st March, 2021

12	the second s	Quarter	Voor to data	(Rs. in Lakh)	
SI No.	Particulars	Ended	Year to date Figures	Corresponding 3 months ender in the previous year	
No.		31/03/2021 (Audited)	31/03/2021 (Audited)	31/03/2020 (Audited)	
1.	Total income from operations	44.60	118.44	23.26	
8	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	10.70	54.11	15.40	
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	10.70	54.11	15.40	
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	13.90	48,59	15.40	
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax)				
	and other Comprehensive Income (after tax)]	72.15	159.41	26.57	
	Equity Share Capital	314.00	314.00	314.00	
	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	99.81	99.81	64.93-	
	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) -			-	
1	1. Basic :	0.44	1.55	0.49	
8	2. Diluted :	0.44	1.55	0.49	

Note: 1. The Standalone Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2021 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on June 25, 2021. The Standalone Audited Quarterly Financial Results along with Statement of Assets and Liabilities have been subjected to Auditors' Report pursuant to the Regulation 33 of the Stell (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 received from the Statutory Auditors of the company.

2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulations 3 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange(s) website i.e. Metropolitan Stock Exchange of India Limited (www.msei.in), BSE Limited (www.sseindia.com) and Website of the Company i.e. (www.sheeworstex.in).

UPL Limited

For and on behalf of the Board of Directors Shree Worstex Limited

> Pawan Kumar Mittal (Director) DIN: 00749265

PUBLIC NOTICE TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

This is to inform the General Public that following share certificate of Rishi Roop Ltd. having its Registered Office at W -75(A) & W-76(A), MIDC INDL ESTATE, SAIPUR NASIK - 422007 registered in the name of the following Shareholder/s have been lost by them.

Sr. No.	Name of the Shareholder/s	Folio No.	Certificate No./s	Distinctive Number/s	No. of Shares
1	SUMITRA MAHIPAL	002401	38036	4221001 - 1100	100
2	SUMITRA MAHIPAL	002401	38037	4221101 - 1200	100

The Public are hereby cautioned against purchasing or dealing in any way with the above referred share certificates.

Any person who has any claim in respect of the said share certificate/s should lodge such claim with the and TransferAgents Link Intime India Private Limited 247 Park, C101, 1st Floor, L. B. S. Marg, Vikroli (W) Mumbai-400083 within 15 days of publication of this notice after which no claim will be entertained and the Company shall proceed to issue Duplicate Share Certificate/s. Place: Delhi Name of Legal Claimant Date: 26.06.2021 RAJENDRA PRASAD MANIPAL

NOTICE

Syngene International Limited

Regd. Office: Biocon Park SEZ, Plot No. 2 & 3, Bommasandra Industrial Area, IV Phase, Jigani Link Road, Bengaluru – 560 099 CIN: L85110KA1993PLC014937, Email- investor@syngeneintl.com

Website: www.syngeneintl.com, Phone: 080-6891 8782 / 83

NOTICE OF THE 28TH ANNUAL GENERAL MEETING AND INFORMATION ON REMOTE E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 28th Annual General Meeting ('AGM') of Syngene International Limited ('the Company') will be held on Wednesday, July 21, 2021 at 3:30 PM through video conferencing ('VC') or other audio visual means ('OAVM'), to transact the business as set forth in the 28th AGM Notice.

In compliance with Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA'), Government of India, companies are allowed to hold AGMs through VC/OAVM, without physical presence of the shareholders at a common venue.

In compliance with the aforesaid circulars and SEBI circular dated May 12, 2020 and January 15, 2021, the Company has sent the Notice of the 28" AGM along with Annual Report for the FY 2020-21 on June 26, 2021 to all shareholders whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants as on June 18, 2021 i.e. cut-off date. Shareholders may note that the Notice of AGM along with the annual report, instructions for remote e-voting and participation in the AGM through VC/OAVM are also available in the website of the Company at www.syngeneintl.com.com and website of the stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) namely KFin Technologies Private Limited i.e. https://evoting.KFintech.com. The dispatch of Notice of the AGM along with annual report through emails has been completed on June 26, 2021.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Secretarial Standard on General Meeting ('SS-2') issued by the Institute of Company Secretaries of India, as amended from time to time, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to all its members to cast their vote electronically on all resolutions set forth in the Notice of the 28th AGM through the electronic voting system of KFin Technologies Private Limited from a place other than the venue of the AGM ('remote e-voting'). All the members are informed that:

The cut-off date for determining the eligibility of members to vote by electronic means or at the AGM through insta-poll is July 14, 2021.

ii. The remote e-voting period shall commence on Friday, July 16, 2021 (9:00 hours IST) and end on Tuesday, July 20, 2021 (17:00 hours IST).

iii. E-voting shall not be allowed beyond 17:00 hours IST on July 20, 2021. The remote e-

Date: 25.06.2021 Place: New Delhi

UPL

10 जनसत्ता, 27 जून, 2021

मुंबई, 26 जून (भाषा)।

1. Iotal income from operations	.70) (13.05) .70) (13.05) .27) (1.55) .27) (1.38)	वृद्धि के बाद
Exceptional and/or Extraordinary items) (8.37) (38) Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) (8.37) (35) Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) (8.37) (35) Intel Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax)) and other comprehensive income (after tax)] 2.06 (25) Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- per share) 85.01 88 88 . Reserves (excluding Revaluation Reserve) 90.90 90 90 90 Basic & Diluted Earnings per share (of Rs.10/- 101 102 102 103	.70) (13.05) .27) (1.55) .27) (1.38)	(13.05) आलोच्य सप (13.05) डॉलर रह गई (13.05) इसमें डॉलर (13.05) इसमें डॉलर (15.5) का भी समाय वृद्धि के बाद
Exceptional and/or Extraordinary items) (8.37) (35) 4. Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 2.06 (25) 5. Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)] 2.06 (25) 6. Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- per share) 85.01 88 85.01 7. Reserves (excluding Revaluation Reserve) 90.90 90 90 90 90	.27) (1.55) .27) (1.38)	^(13.05) इसमें डॉलर ^(1.55) का भी समार्थ वृद्धि के बाद
Exceptional and/or Extraordinary items) 2.06 (25 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax)] and other comprehensive income (after tax)] 2.06 (25 6. Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- per share) 85.01 88 7. Reserves (excluding Revaluation Reserve) 90.90 90 8. Basic & Diluted Earnings per share (of Rs. 10/- 20.00 20.00	.27) (1.55) .27) (1.38)	(1.55) इसम डालर (1.55) का भी समार्थ वृद्धि के बाद
5. Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)] 2.06 (25 6. Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- per share) 85.01 88 85.01 7. Reserves (excluding Revaluation Reserve) 90.90 90.90 90 90	.27) (1.38)	वृद्धि के बाद
and other comprehensive income (after tax)] 2.06 (25 6. Paid-up Equity Share Capital (25 (26 (Face value of Rs. 10/- per share) 85.01 88 7. Reserves (excluding Revaluation Reserve) 90.90 91 8. Basic & Diluted Earnings per share (of Rs. 10/- 91		
(Face value of Rs. 10/- per share) 85.01 88 7. Reserves (excluding Revaluation Reserve) 90.90 90 8. Basic & Diluted Earnings per share (of Rs.10/- 90.90 90	.01 25.01	GILL ACAN
8. Basic & Diluted Earnings per share (of Rs.10/-		85.01
	0.90	BE
each) (For continuing and discontinuing	073	Read.
Image:	97) (0.02) ncial Results filed with the Stor	(0.02) the Stock
	n behalf of the Board of Directors Dinesh Khandelwal Director (Finance & CFO) DIN: 00161831	Jirectors
भी वस्टेक्स लिमिट CIN: L17111DL1982PLC013790 र्पजी. कार्यालय: 325, IIIग तल, अमरवाल प्रजाज, सेक्टर-14, रोहिज ई-मेल: shreeworstex@gmail.com, info@shreew वेबसाईट: www.shreewortex.in, मोबा: 931520	orstex.in, 2833	1. Total income 2. Net Protit/(Lo (before Bycer
CIN: L17111DL1982PLC013790 पंजी. कार्यालय: 325, III तल, अमरवाल पाजा, सेक्टर-14, रोहिर्ण ईंमेल: shreeworstex@gmail.com, info@shreew वेबमाईट: www.shreewortex.in, मोबा: 931520 31 मार्च, 2021 को समाज तिमाही एवं वर्ष के लिए अंकेश्वित स्टेण्डएलॉ क्रम विवरण समाप्त तिमित्र र	orstex.in, 2833 न वित्तीय परिणामी का विवरण (रु. लाखों में) क वर्ष पूर्व वर्ष 31.3.2020	1. Total Income 2. Net Profit/(Lo (before Exceptional a 3.2020) 4. Net Profit/(Lo
CIN: L17111DL1982PLC013790 पंजी. कार्यालय: 325, IIIग तल, अमरवाल प्लाजा, सेक्टर-14, रोहिर्ण ई-मेल: shrceworstex@gmail.com, info@shreew वेबसाईंट: www.shrcewortex.in, मोवा: 931520 31 मार्च. 2021 की समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए अंकेक्षित स्टेण्डएलॉन क्रम विवरण समाप्त तिमाही एवं वर्ष के तिए अंकेक्षित स्टेण्डएलॉन सं. विवाही के 3 31.3.2021 31.3.	orstex.in, 2833 र वित्तीय परिणामां का विवरण (रु. लाखों में) कि वर्ष पूर्व वर्ष 31.3.2020 मंकड़े में समाप्त तत्स्वानी 2021 3 महीने	I. Total Income 2. Net Profit/Lo (before Exceptional a 3.0200 vanfrag 5. Total Compre
CIN: L17111DL1982PLC013790 पंजी. कार्यालय: 325, III तल, अमरवाल पाजा, सेक्टर-14, रोहिर्ण ईमैल: shreeworstex@gmail.com, info@shreew वेषमाईर: www.shreewortex.in, मोबा: 931522 31 मार्च, 2021 को समाज तिमाही एवं वर्ष के लिए अंकेक्षित स्टेण्डएलर्त क्रम्स विवरण समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए अंकेक्षित स्टेण्डएलर्त समाप्त विवरण समाप्त तिमाही के ब 31.3.2021 31.3. (अंकेक्षित) (अंके 1. परिवालनी से कुल आव 44.60 178	orstex.in, 2833 र थितीच परिणामां का विवरण (रु. लाखों में) क वर्ष पूर्व वर्ष 31.3.2020 संकड़े में समाप्त तरस्वानीव 2021 3 महीने श्वित) (अंकक्षित)	I. Total Income 2. Net Profit/Lo (before Exceptional Exceptional 4. 3.020 rendra a) Net Profit/Lo (after Exceptional 5. 4. Net Profit/Lo (after Exceptional 6. 5. Total Compresing (Comprising F tax) and other
CIN: L17111DL1982PLC013790 पंजी. कार्यालय: 325, III तल, अमरवाल पाजा, सेक्टर-14, रोहिर्ण रॅमेल: shreeworstex@gmail.com, info@shreew वेबसाईट: www.shreewortex.in, मोबा: 931522 31 मार्य, 2021 को समाज तिमाही एवं वर्ष के लिए अंकेक्षित स्टेण्डएलर्त तमाही एवं वर्ष के लिए अंकेक्षित स्टेण्डएलर्त तमाही ताव. 2021 को समाज तिमाही एवं वर्ष के लिए अंकेक्षित स्टेण्डएलर्त तमाही ताव. 2021 को समाज तिमाही एवं वर्ष के लिए अंकेक्षित स्टेण्डएलर्त तमाही ताव. 2021 को समाज तिमाही एवं वर्ष के लिए अंकेक्षित गर्य तमाही तिव त्या त्यां के ब 31.3.2021 जो.3. (अंकेक्षित) (अंके 1. परिवालनी से कुल आव 2. अवधि के लिए शुद्ध लाप/ (हानि) (कर, विशिष्ट प्रियालपा मही से पूर्व)	orstex.in, 2833 र दितींच परिणामों का विवरण (रु. लाखों में) क वर्ष पूर्व वर्ष 31.3.2020 मं समाप्त तरस्वानीय 2021 3 महीने श्वित) (अंकेक्षित) 4.44 2.3.26	fizzur 1. Total theome 2. Net Prôti/(Lo (before Exceptional a) 3.020 4. Net Profit/(Lo (after Exceptional a) 5. Total Compret (comprising f tax) and other 6. Equity Share 7. Reserves (exc
CIN: L17111DL1982PLC013790 पंजी. कार्यालय: 325, III तल, अमरवात पाजा, सेक्टर-14, सीर्ल र्मेलेल shreeworstex@gmail.com, info@shreew वेबसाईट: www.shreewortex.in, मीबा: 931523 11 मार्य. 2021 को समाफ तिमाही एवं वर्ष के लिए अंकेक्षित स्टेण्डएली क्रम विवरण समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए अंकेक्षित स्टेण्डएली तमाही तमाही के बार 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,	orstex.in, 2833 7 वितीय परिणामी का विवरण (रु. लाखों से) क वर्ष पूर्व वर्ष 31.3.2020 संकड़े में समाप्त तरस्वानी 2021 3 महीने 18ंबन) (अंकेक्षिन) 4.44 23.26 11 15.40 11 15.40	I. Total Accome 2. Net Profit/Lo (before Exceptional 3.3020) 4. Net Profit/Lo Exceptional 4. 5. Total Compresing (Comprising F atax) and other 6. Equity Share
CIN: L17111DL1982PLC013790 पंजी. कार्यालय: 325, III तल, अपरवाल पाजा, सेक्टर-14, रोहिर्ण मैंग्लेल: shreeworstex@gmail.com, info@shreew बेबासॉंट: www.shreewortex.ii मॉबा: 99152 J मार्य, 2021 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए अंक्रेश्रित स्टेण्डएलर्त क्रम विवरण समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए अंक्रेश्रित स्टेण्डएलर्त क्रम विवरण समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए अंक्रेश्रित स्टेण्डएलर्त के विवरण समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए अंक्रेश्रित स्टेण्डएलर्त के विवरण समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए अंक्रेश्रित स्टेण्डएलर्त के विवरण समाप्त तिमाही के ब 31.3.2021 31.3. (अंकेक्रित (अंक्रेश्रित (अंक्रेश्रेत (अंक्रेश्र व्यंक्ष क्रेश्र क्रेश्र क्रेश्र क्रेश्र क्रेश्र क्रेश्र क्रे वाद) (विंक्रिप्ट एवं)अथवा असाक्षरण मदों के वाद)	orstex.in, 2833 7 वितीय परिणामी का विवरण (रु. लाखों से) क वर्ष पूर्व वर्ष 31.3.2020 संकड़े में समाप्त तरस्वानी 2021 3 महीने 18ंबन) (अंकेक्षिन) 4.44 23.26 11 15.40 11 15.40	No. 1. Total uccome 2. Net Profit/Lo (before Exceptional 3 3.020) 3. Net Profit/Lo Exceptional 3 A. Net Profit/Lo (after Exceptional 4 Net Profit/Lo (after Exception 4 Net Profit/Lo (after Exc
CIN: L17111DL1982PLC013790 पंजी. कार्यालय: 325, III तल, अपरवात पाजा, सेक्टर-14, रोहिर्ण मैंग्लेल: shreeworstex@gmail.com, info@shreew बेबमार्सट: www.shreewortex.iii मॉबा: 991523 I मार्य. 2021 को समाफ तिमाही एवं वर्ष के लिए अंक्रेश्वित स्टेण्डएलर्त क्रम्स विवरण समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए अंक्रेश्वित स्टेण्डएलर्त क्रम्स विवरण समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए अंक्रेश्वित स्टेण्डएलर्त के सार्य विवरण समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए अंक्रेश्वित स्टेण्डएलर्त के बात्त के बात्त विवरण समाप्त तिमाही के ब 31.3.2021 31.3. (अंकेश्वित (अंक्रेश्वित क्रि.) (क्रंत् विशिष्ट अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) 10.70 54. (विधिष्ट एवं अथवा अंतमाप्त मत्ते के वात्) 4. कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) 13.90 48.	orstex.in, 2833 (हितीय परिणामां का विवरण (रु. लाखों से) क वर्ष पूर्व वर्ष 31.3.2020 संसमा तत्स्वानीय 2021 3 महीने श्विस्त) (अंकेश्वित) 4.44 23.26 11 15.40 11 15.40 59 15.40	I. Total uccome 2. Net Profit/Lo (before Exceptional a Exceptional a 4. 3. Net Profit/Lo (after Exceptional a 4. 4. Net Profit/Lo (after Exceptional for the exceptional a) 5. Total Compresing F (Comprising F tax) and other 6. Equity Share 7. 7. Reserves (exc as shown in the the previous y
CIN: L17111DL1982PLC013790 पंजी. कार्यालय: 325, IIT तल, अगरवात पाजा, सेक्टर-14, रोहिणे डे-मेल: shreeworstex.@gmail.com, info@shreew येबमाईट: www.shreewortex.in, मंचा: 991523 Tयं. 2021 को समाफ तिमाही एवं वर्ष के लिए अंक्रेश्नित स्टेण्डएलॉन से खात से साम तिमाही के ब ज्व्रम विवरण समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए अंक्रेश्नित स्टेण्डएलॉन से खात तिमाही एवं वर्ष के लिए अंक्रेश्नित स्टेण्डएलॉन से खात तिमाही एवं वर्ष के लिए अंक्रेशित स्टेण्डएलॉन से खात तिमाही एवं वर्ष के लिए रोक्रेशित प्रेंच्या तिमाही के ब उा परिचलनों से कुल आय 44.60 118 अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (होनि) (हन, विशिष्ट पि.070 54 एवं/अयवा असाधारण मदों के वाद) कर से वाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (होनि) 10.70 54. (विशिष्ट एवं अयवा असाधारण मदों के वाद) अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के प्र2.15 159 वाद) से सामिल) इश्विदी सेयर पूंची 314.00 314	orstex.in, 2833 7 वितीय परिणामी का विवरण (रु. लाखों से) संक वर्ष पूर्व वर्ष 31.3.2020 संक वर्ष पूर्व वर्ष 31.3.2020 संक वर्ष पूर्व वर्ष 31.3.2020 में सपाप्त तरस्वानी 3 महीने 13 महीने (उनेकेक्षिन) (उनेकेक्षिन) 4.44 23.26 11 15.40 11 15.40 15.40 4.41 26.57	No. 1. Total ucome 2. Net Profit/Lo. (before Exceptional at the profit/Lo. 3. Net Profit/Lo. Exceptional at the profit/Lo. 3. Net Profit/Lo. (after Exceptional at the profit/Lo. 3. Net Profit/Lo. (after Exceptional at the profit/Lo. 3. Net Profit/Lo. (after Exceptional at the profit/Lo. a. S. Total Compresent at the profit/Lo. a. F. Total Compresent at the profit/Lo. b. Equity Share 7. Reserves (exc. as shown in the previous y S. 8. Earning Per S. (1) Basic (Rug. (2) Diluted (Rug. NOTES NOTES
CIN: L17111DL1982PLC013790 पंजी. कार्यालय: 325, IIU तल, अमरवात पाजा, सेक्टर-14, तीहर्ण ई-मेल, shreeworstex@gmail.com, info@shreew खेबसाईट: www.shreewortex.in, मंची.: 931520 31 मार्य. 2021 को समाफ तिमाही एवं वर्ष के लिए अंक्रेश्नित स्टेण्डएलॉ- क्रम् विवरण समाप्ति तिमाही एवं वर्ष के लिए अंक्रेश्नित स्टेण्डएलॉ- तमाही एवं वर्ष के लिए अंक्रेश्नित स्टेण्डएलॉ- तमर्थी के लिए शुद्ध लाभ- (हानि) (कर, विशिष्ट एयंअयवा असाधारण मदों के वाद) 3. कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ- (हानि) 10.70 54. (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के वाद) 4. कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ- (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के वाद) 5. अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के वाद) तमिल) (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के वाद से मापिल)	orstex.in, 2833 7 वितियि परिणामी का विवरण (रु. लाखों से) संक वर्ष पूर्व वर्ष 31.3.2020 संक वर्ष पूर्व वर्ष 31.3.2020 सं स्पाप्त तरस्थानी 3 महीने (उनेकेक्षिन) (उनेकेक्षिन) 4.44 23.26 11 15.40 11 15.40 11 26.57 00 314.00	No. 1. Total uccome 2. Net Profit/Lo (before Except 3.Jozo arifar a) 4. Net Profit/Lo (after Except comprising F tax) and other 5. Total Compres (Comprising F tax) and other 6. Equity Share 7. Reserves (exc as shown in tr the previous y 8. Earning Per S continuing and (1) Basic (Rup (2) Diluted (Ru NoTES 1. No Leasing Bu 2. The above re-
CIN: L17111DL1982PLC013790 पंजी. कार्यालय: 325, III तल, अमरवाल पाजा, तेकर-14, रोहिर्ण मैनेस् shreeworstex@gmail.com, info@shreew बेबसॉर्ड: www.shreewortex.ii, मॉबा: 93152 JI मार्य. 2021 को समाफ तिमाही एवं वर्ष के लिए अंक्रेश्वित स्टेण्डएलॉर तमाही: एवं वर्ष के लिए अंक्रेशित स्टेण्डएलॉर तमाही: प्रवे वर्ष के लिए अंक्रेशित स्टेण्डएलॉर प्रियेवालनों से कुल आव प्रियेवालनों से कुल आव प्रियेवालनों से कुल आव प्रविधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) विविष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद) अवधि हेतु कुल व्यापक आव (अवधि हेतु (कर के वदा लाभ (हानि) एवं अन्य व्यापक आव (का क्षे वदा लाभ (हानि) एवं अन्य व्यापक आव (का क्षे वदा त्रांसिक) इक्विटी सेयर पूंजी तासित (पूर्व वर्ष के अंकेशित तुलन पत्र में दर्शाई 99,81 99,	orstex.in, 2833 7 वितीय परिणामी का विवरण (रु. लाखों से) संक वर्ष पूर्व वर्ष 31.3.2020 में संयाप्त तत्स्वानीय 3 महीने (अंकेक्षित) (अंकेक्षित) (अंकेक्षित) (अंकेक्षित) 11 15.40 11 15.40 11 26.57 00 314.00	No. 1. Total uccome 2. Net Profit/Lo (before Exceptional Exceptional as asozo renfra a) 4. Net Profit/Lo (after Exceptional assozo renfra a) 5. Total Compre- {Comprising France association association (Comprising France) 8. Equity Share 7. Reserves (exc as shown in the the previous y 8. Earning Per S continuing and (1) Basic (Rup (2) Diluted (Rup (2) Dilute

विदेशी मुंद्रा भंडार चार अरब डॉलर घट

व्याप

सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.14 अरब डॉलर घटकर 603.9 अरब डॉलर के स्तर पर आ गया। इससे पूर्व 11 जून, 2021 को समाप सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 3.074 अरब डॉलर बढ़कर 608.08 अरब डॉलर के रेकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था।

रिजर्व बैंक के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार 18 जून व समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का कारण विदेशी मुद्र आस्तियों में गिरावट रहा। आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा परिसंपत्तिय आलोच्य सप्ताह के दौरान 1.918 अरब डॉलर गिरकर 561.540 अर डॉलर रह गईं। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां डॉलर में व्यक्त की जाती हैं प इसमें डॉलर के अलावा यूरो, पाउंड और येन में होने वाले उतार-चढ़ात का भी समायोजन किया गया है। पिछले सप्ताह में 49 करोड़ डॉलर क वृद्धि के बाद स्वर्ण भंडार भी आलोच्य सप्ताह के दौरान 2.170 अरव डॉलर घटकर 35.931 अरब डॉलर रह गया।

Regd. Office: 607, Rohit House, 3, Tolstoy Marg, New Delhi-110 001 CIN No.: L65993DL1990PLC039397, Website: www.bervin.com, Email Id: secretary@bervin.com STATEMENT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER / YEAR ENDED 31ST MARCH 2021 (Amount in Lacs							
SI No.	Particulars	3 months ended 31.03.2021 Audited	Year to date figures for current period ending 31.03.2021 Audited	Year to date figures for			
1.		(10.77)	506.54	177.14			
3.	(before Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period before tax (after	(25.58)	414.94	83.41			
4.	Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period after tax	(25.58)	414.94	83.41			
5.	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	(94.82)	345.70	66.62			
	tax) and other Comprehensive Income (after tax)) Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	(94.82) 589.81 1,857.88	345.70 589.81 1,857.88	66.62 589.81 997.85			
	and the second second second second	31.3.2021	31.3.2021	31.3.2020			
8.	Earning Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)- (1) Basic (Rupees per equity share) (2) Diluted (Rupees per equity share)	(0.43) (0.43)	7.04	1.41 1.41			

 Figures for the quarter/year ended 31st March, 2020 have been regrouped wherever necessary to make them comparable with figures of the current quarter ended 31st March, 2021.

4. As the company is engaged in mainly in single primary business segment, the disclosure requirement of Accounting Standard (AS-17) 'Segment Reporting' notified under Section 133 of the Companies Act, 2013, read together with paragraph 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 are not applicable.

5. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with Stock Exchanges for the quarterly ar ended 31 March, 2021 under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Discosure Regularements) Regulations, 2015. The detailed format of the same is available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and Company's website (www.bervin.com)

For and on behalf of Board of Directors Sd/-S.K. Murgai (Director) DIN : 00040348

एबीएम इन्टरनेशनल लिमिटेड पंजी. कार्यालय: 10/60, इंड. एग्रिंग, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015